

हमने अपनी **last class** में सीखा था कि किस तरह से किसी को **greet** करें और कैसे उसका **answer** दें। **Greet** करने के बाद का **step** होता है अपने आप को **introduce** करने का। **Self introduction topic** बहुत ही **basic topic** है पर बहुत ही **important** है। अपना **introduction** आपको किसी इंटरव्यू में देना पड़ सकता है, मीटिंग में या फिर जब आप नए लोगों से मिले तब। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस **lesson** को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और जानें कि क्या हमें बोलना चाहिए और क्या नहीं। चाहे आप बात कर रहे हो या आपसे कोई बात कर रहा हो, दोनों ही **conditions** में आपका **impression** अच्छा होना चाहिए। **Infact Introduce yourself** यह **interview** में पूछा जाने वाला एक बहुत ही **common question** भी है।

मेरी एक **friend interview** के लिए गई थी पर उसने आकर मुझे बताया कि उसका **selection** नहीं हुआ। मैंने पूछा कि किस **questions** के **answers** वो नहीं दे पाई क्योंकि वह अच्छी **student** थी। उसका **answer** था कि उससे कोई **question** ही नहीं पूछा। सिर्फ उसे अपने बारे में बताने के लिए कहा गया और जैसे ही उसने बताना शुरू किया, कुछ देर बाद उसे भेज दिया गया। मैंने पूछा कि आपने अपने बारे में क्या बताया। उसने कहा मैंने अपना **introduction** शुरू किया था -

Myself Prasun बोल कर।

जैसे ही उसने मुझे यह बोलै, मैं समझ गई गलती कहाँ हुई है। **Friends**, यह एक बहुत ही **common mistake** है जो अक्सर की जाती है - **Myself** एक **reflexive pronoun** हैं जिससे कभी भी **sentence start** नहीं होता। सही **sentence** होगा -

Hello, I am Prasun. या

Hello, My name is Prasun.

इसी तरह जब हम किसी का नाम पूछते हैं तो हम उनसे पूछते हैं -

What is your good name?

यह पूछना भी पूरी तरह से गलत तो नहीं कहा जाएगा **but simple** सी बात है नाम **bad** तो नहीं होगा ना। **So good name** क्यों? **Actually** यह **typical Asian** और **better** तो **say Indian way** हैं किसी का नाम पूछने का। 'Good name' सीधे सीधे हिंदी में पूछे जाने वाले **question** - आपका शुभ नाम क्या है? का **translation** हैं। **It is used as a polite way to ask some one's name** पर यह आपकी **English** के लिए ठीक नहीं है।

अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो तरीका यह है कि पहले आप अपना नाम बताए जैसे -

Atul: I don't think I know your name. Mine is Atul.

Kiran: [My name is] Kiran. It's nice to meet you.

Atul: Nice to meet you, too.

Introduction हमेशा **short and to the point** रखना चाहिए। इधर उधर की बातें ना कर के सीधे और **simple** शब्दों का **use** करना चाहिए।

अगर आपसे पूछा गया है -

Where are you from?/ Where do you come from?/ Where were you born? (आप कहाँ से है? आप कहाँ से आए हैं?/ आपका जन्म कहाँ हुआ था?)

तो आप **answer** दे सकते हैं -

I grew up in New Delhi, but I'm originally from Gujarat. (instead of simply saying - I am living in New Delhi. But I was born in Gujarat.)

I'm from ...

I hail from ...

I come from ...

My hometown is ...

I'm originally from ...

I was born in ...

REMEMBER - ध्यान रखिए कि **born in** का **use** जब आप **city/ country** के बारे में बात कर रहे हों तब किया जाता है जैसे - **I was born at Ahmedabad.**

जबकि जब आप **born at** का **use comparatively** छोटे **places** के लिए करते हैं। जैसे -

I was born at Life Care Hospital in New Delhi.

इसी तरह **don't say - I am born in** क्योंकि **I am present tense** (वर्तमान काल) है जबकि हम बात कर रहे हैं **past event** की, जो घटना हो चुकी है।

अब **next question** हो सकता है आपके **age** से **related**. **Normally** हम **conversation** में इसे **avoid** कर सकते हैं पर इसका **answer** किस तरह दें, यह भी सीख लेते हैं -

How old are you? (आप कितने साल के हैं?)

और आप अपनी **exact age** ना बताना चाहे तो आप उनको कह सकते हैं -

I'm over/ almost/ nearly ... (मैं लगभग/ करीब करीब)

I am around your age. (मैं आप की ही उम्र का हूँ।)

I'm in my early twenties/ late thirties. (मैं **early twenties/ late thirties** में हूँ।)

early twenties का मतलब - 20 से 25 साल जबकि **late thirties** का अर्थ है 35 to 40 years)

अपनी **family** के बारे में बात करते **time** ये मत बोलिए

I have a small sister./ big brother.

English बोलते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि **meaning** एक होने पर भी आप एक **word** को दूसरे **word** से **replace** नहीं कर सकते। यहाँ पर सही **sentence** होगा

I have a younger sister./ elder brother.

younger और **elder** को आप **small** और **big** से **replace** नहीं कर सकते।

We are 3 siblings. (हम 3 भाई बहन हैं.)

जब आप **cousins** के बारे में बात करते हैं तो **cousin sister** या **brother** नहीं बोल सकते, यह गलत इंग्लिश है। सिर्फ **cousin** का **use** करना सही है।

अब यहाँ पर बहुत से लोग **sister** के लिए **He** या **his** का **use** करते हैं जैसे -

I have a younger sister. He is a student.

इसलिए बातचीत करते समय **PRONOUN** का ध्यान जरूर रखें **especially** जब आप अपने **family, friends** के बारे में बात कर रहे हो -

For woman/ girl → She/ her/ herself

For man/ boy → He/ his/ himself

For more than one person → They/ their/ them

For animal/ thing - It/ its

आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आप

Do you live in a joint family? (क्या आप संयुक्त परिवार में रहते हैं।)

जिसका **answer** आप दे सकते हैं -

Yes, I live in a joint family. (हाँ, मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ। - **Joint family means - where you are living with your grandparents and uncle/ aunt**)

No, I live in a nuclear family. (Nuclear family - you, your parents and your siblings)

अपनी **family** के बारे में बात करते समय आप कुछ इस तरह के **Expressions use** कर सकते हैं -

To look like - शारीरिक रूप से किसी से मिलते जुलते या किसी के समान दिखना

I look like my father. (मैं अपने पिता की तरह दिखता हूँ।)

To run in the family - refers to a quality, ability or skill that's shared by all or many of your family members

Silky straight hair runs in my family. (सिल्की सीधे बाल मेरे घर में सभी के हैं/ मेरे खून में हैं।)

To have something in common - समान interests, likes and dislikes को साझा करने वाले परिवार में दो या अधिक लोगों को बारे में बात करता है

My brother and I have many things in common. We enjoy cricket and cycling. (मेरे भाई और मेरे बीच बहुत सी बातें हैं। हम क्रिकेट और साइकिलिंग करना पसंद करते हैं।)

To be named after - किसी को (esp the same first name) परिवार के अन्य बड़े सदस्य का नाम देना

I was named after my grandmother. (मेरा नाम मेरी दादी के नाम पर रखा गया था।)

To be on good terms - किसी के साथ अच्छे सम्बन्ध होना (to have a good relationship with someone)

I'm on good terms with my sister. (मेरा मेरी बहन के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं।)

I'm not on good terms with my cousin. (मेरा मेरे cousin के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं है।)

To be close to - means that you have a close relationship that cannot easily be broken

I'm very close to my mother. (अमिन अपनी माँ के बहुत समीप हूँ।)

कभी कभी लोग आपका marital status भी पूछते हैं जिसके लिए आप कह सकते हैं -

I am married./ I am still a bachelor.

REMEMBER - Bachelor एक ऐसे आदमी के लिए use होता है जिसका विवाह नहीं हुआ हो। ऐसी lady जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए हम damsel word का use करेंगे। आपने बहुत सी places पर Bachelor का feminine gender spinster पढ़ा होगा। यह भी सही है पर modern time में यह एक ऐसी लेडी के लिए use किया जाता है जिनका विवाह नहीं हुआ हो और उनकी अब शादी की age भी निकल गयी हो। इसलिए कोशिश करें कि आप spinster की place पर damsel का use करें। ये छोटी छोटी बातें आपकी English को और भी अधिक impressive बना देंगी।

कभी कभी ऐसी situation भी आती है जब आपको किसी और को introduce करवाने की जरूरत पड़ती है। उस

समय आप इन expressions का use कर सकते हैं -

Hema, please meet Mahima.

Hema, have you met Mahima?

I'd like you to meet Liza.

I'd like to introduce you to Mahima.

Suman, this is Kavita. Kavita this is Suman.

बहुत बार सुना है लोग phone पर कुछ ऐसे बात करते हैं

Hi, is Mridul there?

जिसका answer उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो थोड़ा rude सा sound करता है -

Can I ask who's calling?

इसलिए जरूरी है की फ़ोन पर पहले के 4 - 5 seconds में ही सुनने वाले को impress किया जाए। इसलिए आप कुछ बातों का ध्यान रखें

1) अगर आप **business call** पर है तो कहें -

Hello, my name is (your name).

अच्छा होगा कि आप अपना पूरा नाम बताएं। साथ ही अपना **professional title**, जैसे की **doctor**

Hello, my name is Dr Mridul Shah. (अगर यह call किसी **purpose** से किया गया है।)

2) अगर आप **personal call** पर है तो सिर्फ अपना **first name** जैसे -

Hello, my name is Mridul.

साथ ही पूछें

May I speak with (person's name)? (यह न सोचें कि आप सही **person** से बात कर रहे हैं। बात को **politely** आगे बढ़ाए।)

आज के lesson को खत्म करने से पहले यह भी सीख लेते हैं कि introduction के बाद आप यह कह सकते हैं -

Nice to meet you.

Pleased to meet you.

Happy to meet you.

यह question interview में बहुत बार पूछा जाता है। उस समय के लिए आप इन questions के

answers ready कर के रखिए

Who you are?

Where do you come from?

What have you studied?

Who you are (as a professional)?

आप कुछ इस तरह answer को start कर सकते हैं -

Hi, I am Anshu. I am from Ahmedabad. I completed my B. Com (Honors) from Christ College, Bengaluru in 2018. My father is a doctor, and my mother is a social worker. I have a younger brother who is pursuing his B.Tech.

या फिर

Good morning sir. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Ishita Siddhartha, I am from Patna, Bihar.

Coming to my education:

I have done my MCA in xyz college with 8.7 CGPA, I have completed my UG with 87%,.....

या फिर

Hi, I am Sunil Kumar. I am from Delhi. I completed my Bachelor of Engineering degree in 2009 from NIT Patna. I got hired by a renowned IT company through the campus placement. I have been working with the company for almost a decade now....

Tip of the day

Difference Between “Some” And “Any”

Some और **Any** दोनों का मतलब ही “कुछ या कोई” के अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। लेकिन **Some** और **Any** को अलग अलग जगह में प्रयोग किया जाता है.

Some को सकारात्मक वाक्य [**Positive Sentences**] के साथ प्रयोग करते हैं जबकि **Any** को नकारात्मक वाक्य [**Negative Sentences**] के साथ **use** करते हैं। जैसे -

मेरे पास कुछ जानकारी है। (I have some information.)

मेरे पास कुछ जानकारी नहीं है। (I do not have any information.)

मुझे कुछ ब्रेड चाहिए। (I want some bread.)

I don't want any bread. (मुझे कोई भी ब्रेड नहीं चाहिए।)

Do we have any bread in the house? (क्या आपके पास घर पर कोई ब्रेड है?)

”Some” और “Any” को हमेशा **Uncountable Nouns** और **Plural Countable Nouns** के साथ ही **use** किया जाता है **Singular Countable Nouns** के साथ नहीं।

पर इसमें भी कुछ exceptions होते हैं -

“Some” का use questions पूछने में किया जा सकता है जब आप किसी को कुछ offer कर रहे हो या कुछ मांग रहे हो जैसे -

Would you like some biscuits? (क्या आप कुछ बिस्किट्स लेंगे?/ लेना पसंद करेंगे?)

Can I have some extra ketchup, please? (क्या मुझे कुछ ज्यादा ketchup मिल सकती है, please?)

आज हमने सीखा किस तरह अपना introduction दें। पर introduction सिर्फ यही पर समाप्त नहीं होता। जब बातें ज्यादा करनी हो या लम्बी हो जाए तो हम होनी पसंद, ना पसंद केबारे में भी बात करते हैं।

Even कभी कभी यही question interview में भी पूछ लिया जाता है। इसलिए हमारी next class इसी पर base होगी।

How to talk about your likes/ dislikes and preferences